

STANDARD SURFACTANTS LTD.
8/15, ARYA NAGAR, KANPUR - 208 002 (U.P.)
Tel. : 0512-2531762 • Fax : 0512 2548585
E-mail : headoffice@standardsurfactants.com
Website : www.standardsurfactants.com
CIN No. : L24243UP1989PLC010950

To
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai-400001

06-11-2018

Dear Sir,

Sub: Submission of Newspaper Notice for the Board Meeting

Re: Scrip Code No. 526231

Pursuant to Regulation 30(1) of the SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published on 06.11.2018 in Jansatta & Financial Express pursuant to Regulation 47 of the SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015 in relation to the Meeting of Board of Directors of the Company to be held on Wednesday , November 14,2018 at 04:30 pm to, *inter-alia*, consider, approve and take on record Un-audited Financial Results for the quarter/half-year ended September 30, 2018.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Standard Surfactants Limited


(Shivansh Tiwari)
Company Secretary



Works :

- 24 A & B New Sector, Industrial Area, Mandideep, Bhopal - 462 046 (M.P.)
- Plot No. 114, Gondpur Industrial Area, Paonta Sahib, (H.P.)

INDIAN Bank
 शाखा - नोएडा (ZJ44)
 फोन : 0120-2400440 / 2400439

शुद्धि पत्र
 यह नोटिस जनसत्ता अखबार में दिनांक 04.11.2018 को पेज सं. 13 पर प्रकाशित सूचनाओं की नीलामी के सम्बन्ध में है जिसमें ज्ञापन खाता सं. 04306530 प्रकाशित हुआ था। कृपया ज्ञापन खाता संख्या को 043065300000571 पर है। शेष सभी विषय/शर्तें एवं विवरण पूर्ववत् रहेंगे।

दिनांक: 1.11.2018
 स्थान: नोएडा

जगन लैम्प्स लिमिटेड
 नरला पियाऊ, मनिगरी रोड, कुण्डली, जिला - सोनीपत, हरियाणा - 131028
 CIN: L31501HR1993PLC033993
 14.11.2018 को आयोजित की जाने वाली बोर्ड की बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीय दायित्व तथा उद्घाटन अधिका) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्तःस्थापित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिखे जाएंगे।

जगन लैम्प्स लिमिटेड के लिये
 हस्ता/-
 दिनांक: 3 नवंबर, 2018 संदीप यादव
 स्थान: कुण्डली कम्पनी सचिव

SMC CREDITS LIMITED
 CIN: L65910DL1992PLC049566
 24, Ashoka Chambers, 5-B Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060
 Phone: +91-11-45012880
 Email: www.smcprco11@gmail.com
 Website: www.smccredits.com

NOTICE
 Pursuant to the Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held at 4.00 P.M. on Wednesday, the 14th November, 2018 at 24, Ashoka Chambers, 5-B Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060 to consider and approve Unaudited Financial Results for the 2nd quarter ended 30th September, 2018. The Notice is also available on Stock Exchange website at www.bseindia.com.

For SMC Credits limited
 Sd/-
 (Shraboni Chatterjee)
 Date: 05.11.2018 Company Secretary

GLC INDUSTRIES LTD.
 (Formerly known as Spentex Industries Ltd.)
 CIN : L74899DL1991PLC138153
 Regd. Office: A-60, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020
 Tel: +91-11-4658900 Fax: +91-11-26358181
 Email : secretarial@glcindia.com

NOTICE
 Pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th November, 2018 at its Registered office, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30.09.2018.

This notice is also available on the website of the Company, i.e., www.glcindia.com and at the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

for GLC INDUSTRIES LIMITED
 (Formerly known as Spentex Industries Ltd.)
 Place : New Delhi (Sd/-) Bharat Kapoor
 Date: 05.11.2018 Company Secretary

MEGA CORPORATION LTD.
 CIN L65100DL1985PLC092375
 Regd. Office: 108, First Floor, Taimor Nagar, Opp. New Friends Colony, New Delhi-110025
 Ph: +91 11 41516171 Fax: +91 11 26912728
 Email: info@megacorp.ltd
 Website: www.megacorp.ltd.com

NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29(1) & (2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation 2015, the meeting of the Board of Directors of the company will be held on 14th November, 2018 at 04:00 PM at the Registered office of the Company inter-alia, to consider & take on records the Un-audited Financial Results for the Half Yearly Ended 30th September, 2018.

By order of the Board
 For Mega Corporation Limited
 Sd/-
 (SURENDRA CHHALANI)
 Director and CFO
 Date: 05.11.2018

R.R CORPORATE SECURITIES LIMITED
 Regd. Off.: ADMINISTRATIVE BLOCK, METRO WALK, SECTOR - 10 ROHINI, NEAR RITHALA METRO STATION NEW DELHI - 110085
 CIN: L67120DL1986PLC026187
 Email: rrsecurities@gmail.com

NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, November 14th, 2018, inter alia, to consider and take on record the unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30th, 2018.

The said information is also available on the website of the company at www.rrscs.com and may also be available on stock exchange website at www.mseil.in.

For R. R Corporate Securities Limited
 Sd/-
 Gian Vijeshwar
 Date: 05/11/2018

DELTA LEASING & FINANCE LIMITED
 CIN: L67120DL1983PLC016990
 55 F.I.E. Patparganj, Industrial Area, Delhi-110092
 Phone Number: 011-42420614
 011-22150444, 011-27676399
 E-mail: info@deltaleasing.in
 Website: www.deltaleasing.in

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Delta Leasing & Finance Limited is scheduled to be held on Wednesday, 14th November, 2018 at 3.30 P.M. at the Registered Office of the Company at 55 F.I.E., Patparganj Industrial Area, Delhi-110092 to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2018 and to consider any other matter with the permission of Chair.

This information is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's shares are listed and on the website of the Company viz. (www.deltaleasing.in)

For DELTA LEASING & FINANCE LIMITED
 Sd/-
 (Renu Jindal)
 Managing Director
 Date: 05.11.2018 DIN: 01843439

एपेक्स होम फाइनैस लिमिटेड
 सीआरएन: L65910DL1985PLC021241
 पंजीकृत कार्यालय: एन-5 एन 6, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
 ई-मेल: अपेक्स: contact@apexfinancials.in वेबसाइट: www.apexfinancials.in
 टेलीफोन: +91-11-40348775

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीय दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 की विनियम 29 एवं 47 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्तःस्थापित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिखे जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी वेबसाइट www.apexfinancials.in पर और चौरासई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी की प्रतिवृत्तियों में व्यवहार के लिए इन्साइडर ट्रेडिंग विंडो नवम्बर 6, 2018 से नवम्बर 16, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

बोर्ड के आदेश से
 कृते एपेक्स होम फाइनैस लिमिटेड
 हस्ता/-
 (फूल झा)
 कम्पनी सचिव
 दिनांक: 05 नवम्बर, 2018

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
 (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF POWERPLANT PERFORMANCE IMPROVEMENT PRIVATE LIMITED

1. Name of corporate person: POWERPLANT PERFORMANCE IMPROVEMENT PRIVATE LIMITED
 2. Date of incorporation of corporate person: 6th May 1997
 3. Authority under which corporate person is incorporated/registered: The Registrar of Companies, Delhi
 4. Corporate identity number/limited liability identity number of corporate person: U28991DL2003PTC120915
 5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate person: Flat P-2/681, Asian Games Village Complex, Delhi-110049
 6. Liquidation commencement date of corporate person: 23rd October 2018
 7. Name, address, email address, telephone number and the registration number of the liquidator: Name: Sumit Shukla, Address: B-4/702, Krishna Apra Garden, Plot-7, Vaibhav Khand, Indrapuram, Ghazalabad, U.P. Email address: sumit_shukla@rediffmail.com Registration No: [IBBI/PA-003/JP-N00064/2017-18/10550
 8. Last date for submission of claims: 22nd November 2018

Notice is hereby given that the Powerplant Performance Improvement Private Limited is a company which is being voluntarily liquidated on 23rd October 2018. The stakeholders of Powerplant Performance Improvement Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 22nd November 2018, to the liquidator at the address mentioned against item 7. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Name and Signature of the Liquidator: Sumit Shukla Date: 3rd November 2018 Place: Delhi

DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD.
 1, Saket, Meerut - 205 203, Ph: 0171-264811-52, 2651801 Fax: 0171-2651993
 e-mail dhanvantrihospital@gmail.com; website: www.djrl.org.in

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 Read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 NOTICE is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 13th day of November, 2018 at 2:00 P.M. at Meerut, inter alia, to consider and approve unaudited financial results for the Company for the quarter and half year ended September 30, 2018.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <http://www.djrl.org.in> and may also be accessed on the Stock Exchange websites at <http://www.bseindia.com>.

As per the Code of conduct of the company for prevention of Insider Trading in the securities of the company the "Trading Window" shall remain closed from 9:00 A.M. on 6th November 2018 and end 48 hours after the results are made public on 13th November, 2018 for designated directors and employees of the company in view of the meeting of board of directors of the company is scheduled to be held on Tuesday, the 13th day of November, 2018.

For Dhnavantri Jeevan Rekha Ltd.
 Sd/-
 (Dr. V.S. Phull) Managing Director

Deltron Limited
 CIN No : L32109DL1982PLC013838
 Regd Office: C-120, Naraina Industrial Area, New Delhi-110 028
 E-mail : deltron1982@rediffmail.com, Website : www.deltronlimited.in

Extracts of Standalone Unaudited Results for the Quarter and Half Year Ended 30-09-2018

Sl. No.	Particulars	Rs in Lacs			
		30-09-18 (Un-Audited)	30-09-17 (Un-Audited)	30-09-18 (Un-Audited)	30-09-17 (Un-Audited)
1	Total Income from operations	19.20	12.78	38.20	35.12
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.45	-5.87	-9.59	-9.55
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.45	-5.87	-9.59	-9.55
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-7.23	-6.36	-9.21	-10.04
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)	-4.67	-1.49	-5.79	-9.98
6	Equity Share Capital	285.00	285.00	285.00	285.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)				510.69
8	Earning Per Share of Rs.10/- each (for continuing and discontinued operations) - Basic & Diluted	-0.25	-0.22	-0.32	-0.35

Note: The above is an extract of the detailed form of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website deltronlimited.in.

For Deltron Limited
 Sd/-
 Kumar Srivinasan
 Whole time Director

SUPREME COMMERCIAL ENTERPRISES LIMITED
 Regd. Office: Y-4-A-C, Loha mandi, Naraina, New Delhi - 110028
 Ph. No. : 9350150766, E-mail ID : supremecommercial@gmail.com
 CIN : L51909DL1983PLC016724

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30th SEPTEMBER, 2018

Particulars	(Rs. in Thousand)		
	Quarter Ended 30/09/2018 (Un-AUDITED)	Half Year Ended 30/09/2018 (Un-AUDITED)	Quarter Ended 30/09/2017 (Un-AUDITED)
Total Income	8067.95	16259.93	8382.65
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or extra ordinary items)	379.87	728.86	433.93
Net Profit / (Loss) for the period before tax. (After Exceptional and/or extra ordinary items)	379.87	728.86	433.93
Net Profit / (Loss) for the period after tax. (After Exceptional and/or extra ordinary items)	379.87	728.86	433.93
Total Comprehensive income for the period (comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	379.87	728.86	433.93
Paid up Equity Share Capital	5357.49	5357.49	5357.49
Reserves (excluding revaluation reserves)	14351.74	14700.73	13787.45
Earnings per share (of Rs. 10/-each) for continuing & discontinuing operations	0.71	1.36	0.81
Diluted:	0.71	1.36	0.81

A. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 5th November, 2018.
 B. The above is an extract of the detailed form of Quarterly/Half-Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Quarterly/Half yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.mseil.in) and on the Company website(www.supremecommercial.co.in)

For Supreme Commercial Enterprises Ltd.
 Sd/-
 (Sita Ram Gupta)
 Director
 Date: 05.11.2018 DIN: 00053970

EFFICIENT INDUSTRIAL FINANCE LIMITED
 CIN: L65923DU2012PLC051433
 Regd. Office: 3/14A 1st Floor Vijay Nagar, Double Storey, New Delhi-110009
 Email ID: efficientindustrial@gmail.com
 Website: www.efficientindustrial.in
 Contact No: 011-27132054

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th November, 2018 at 03:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 3/14A 1st Floor Vijay Nagar Double Storey, Delhi-110009 to inter alia, consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2018 and other business as per agenda.

"Equity Shareholders of the company are invited to send their questions/Agendas, if any, to be discussed with the board in their ensuing meeting in word file to sunriseproducts@gmail.com along with your name, address, Folio No./DP ID and Client ID along with number of shares held"

Notice of Board meeting is available on Company's website www.sunriseproducts.in and stock exchange website viz. www.mseil.com.

By Order of the Board
 For Sunrise Distilleries Limited
 Sd/-
 Kamal Jain Dugar
 (Managing Director)
 Date: 03.11.2018
 Address: 8, Priya Darshani Vihar, Part-2 Delhi-110009

RAJ KUMAR BARDIA
 (Managing Director)
 Date: 03.11.2018
 Address: House No.-205, Near Kalyan Vihar Bus Stand Old Colony, Model Town II, DR.Mukherjee Nagar North West Delhi-110009

DR. Mukherjee Nagar North West Delhi-110009

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: एन-5 एन 6, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
 ई-मेल: अपेक्स: contact@apexfinancials.in वेबसाइट: www.apexfinancials.in
 टेलीफोन: +91-11-40348775

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीय दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्तःस्थापित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिखे जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी वेबसाइट www.apexfinancials.in पर और चौरासई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी की प्रतिवृत्तियों में व्यवहार के लिए इन्साइडर ट्रेडिंग विंडो नवम्बर 6, 2018 से नवम्बर 16, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

बोर्ड के आदेश से
 कृते एपेक्स होम फाइनैस लिमिटेड
 हस्ता/-
 (फूल झा)
 कम्पनी सचिव
 दिनांक: 05 नवम्बर, 2018

एपिस इंडिया लिमिटेड
 CIN: L51900DL1983PLC164048
 पंजी. कार्यालय: 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
 Tel: 011-43206650; Fax: 011-25713631; E-mail: mail@apisindia.com, Website: www.apisindia.com

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीय दायित्व तथा उद्घाटन अधिका) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्तःस्थापित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिखे जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी वेबसाइट www.apisindia.com पर और चौरासई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी की प्रतिवृत्तियों में व्यवहार के लिए इन्साइडर ट्रेडिंग विंडो नवम्बर 6, 2018 से नवम्बर 16, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

बोर्ड के आदेश से
 कृते एपिस इंडिया लिमिटेड
 हस्ता/-
 (विमल आनंद)
 कम्पनी सचिव
 दिनांक: 5 नवम्बर, 2018 09951380

SUNRISE AGRO PRODUCTS LIMITED
 CIN: L01111DL1985PLC021268
 Regd. Office: 3/14A, First Floor, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009
 E-mail: sunriseagroproducts@gmail.com; Website: www.sunriseagroproducts.in

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th November, 2018 at 10:00 pm at the Registered Office of the Company at 3/14A, First Floor, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009 to inter alia, consider, approve and take on record the unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2018.

"Equity Shareholders of the company are invited to send their questions, if any, to be discussed with the board in their ensuing meeting in word file to sunriseagroproducts@gmail.com along with your name, address, Folio No./DP ID and Client ID along with number of shares held"

Notice of Board meeting is available on Company's website www.sunriseagroproducts.in and stock exchange website viz. www.mseil.in

By Order of the Board
 For Sunrise Agro Products Limited
 Sd/-
 Abhishek Bardia
 Managing Director
 Date: 04/11/2018
 DIN: 06670438

SUNRISE DISTILLERIES LIMITED
 CIN No: L15511DL1985PLC021272
 Regd. Office: 3/14A 1st Floor Vijay Nagar Double Storey, Delhi-110009
 Contact No: 011-27132054
 Ph: +91 9868008427
 Email: sunriseindustrial@gmail.com
 Website: www.sunrisedistilleries.com

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th November, 2018 at 03:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 3/14A 1st Floor Vijay Nagar Double Storey, Delhi-110009 to inter alia, consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2018 and other business as per agenda.

"Equity Shareholders of the company are invited to send their questions, if any, to be discussed with the board in their ensuing meeting in word file to sunrisedistilleries@gmail.com along with your name, address, Folio No./DP ID and Client ID along with number of shares held"

Notice of Board meeting is available on Company's website www.sunrisedistilleries.com and stock exchange website viz. www.mseil.com.

By Order of the Board
 For Sunrise Distilleries Limited
 Sd/-
 Kamal Jain Dugar
 (Managing Director)
 Date: 03.11.2018
 Address: 8, Priya Darshani Vihar, Part-2 Delhi-110009

A.K. SPINTEX LIMITED
 Regd. Office:-14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-kalan, Bhiwara-311001 (Raj.)
 Ph: 9877049006, 9929139002 - E-mail: aksintex@gmail.com
 Website: www.aksintex.com (CIN: L17117R1994PLC008916)

NOTICE FOR BOARD MEETING
 Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Regulation and Disclosure Obligations) Regulation, 2015) it is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th Nov, 2018 at 3:00 P.M. at the registered office of the company at 14 K.M. Stone, Chittorgarh Road, Biliyan Kalan, Bhiwara-311001 to, inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Statements for the quarter and 6 month ended 30th September, 2018 along with other routine business.

Further, in terms of Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of the company, the Trading Window for transaction in securities of the company shall remain closed from 6th Nov, 2018 to 14th Nov, 2018 (both days inclusive) for insider for the purpose of announcement of aforesaid result.

For A.K. SPINTEX LIMITED
 Ashish Kumar Bagrecha
 Company Secretary & Compliance Officer

जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
 सीआरएन: L65923DU2012PLC051433
 पंजीकृत कार्यालय: एन-5 एन 6, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
 ई-मेल: अपेक्स: contact@apexfinancials.in वेबसाइट: www.apexfinancials.in
 टेलीफोन: +91-11-40348775

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीय दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्तःस्थापित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिखे जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी वेबसाइट www.apexfinancials.in पर और चौरासई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी की प्रतिवृत्तियों में व्यवहार के लिए इन्साइडर ट्रेडिंग विंडो नवम्बर 6, 2018 से नवम्बर 16, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

बोर्ड के आदेश से
 कृते जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
 हस्ता/-
 प्रदीप कुमार
 (कम्पनी सचिव)
 दिनांक: 05.11.2018
 स्थान: नई दिल्ली
 सवरस्ता सं. : एसीएन 23157

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED
 CIN:L74899DL2000PLC105817
 Regd. & Corporate Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020.
 Tel.: 011-47351111 Fax: 011-2622 9671
 Website: www.tigerlogistics.in, Email: tlog@tigerlogistics.in

NOTICE OF THE BOARD MEETING
 In accordance with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given that a meeting of the board of directors of the company is scheduled on Wednesday, 14th November, 2018 to inter alia, consider, approve and take on record the financial statements for the quarter ended & half year ended 30th September, 2018.

Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015 the Trading window shall be closed from 05th November, 2018 to 16th November, 2018 (both days inclusive).

This notice is being given in the compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

For Tiger Logistics (India) Limited
 Sd/-
 Vishal Saurav Gupta
 Company Secretary & Compliance Officer

महान फूड्स लिमिटेड
 CIN: L5419HP1987PLC007356
 पंजी. कार्यालय: जहाजबंदी, राष्ट्रीय राजमार्ग 22, ग्राम दतियार, पलवान, हजारा सोलन, हिमाचल प्रदेश, 173220
 वेबसाइट: www.mahaanfoods.com

सूचना
 सेबी (सूचीय दायित्व तथा उद्घाटन अधिका) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्तःस्थापित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिखे जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी वेबसाइट www.mahaanfoods.com तथा सच ही चौरासई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
 कृते महान फूड्स लिमिटेड
 हस्ता/-
 (शुभम जैन)
 कम्पनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकारी
 दिनांक: 5.11.2018

जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: एन-5 एन 6, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
 ई-मेल: अपेक्स: contact@apexfinancials.in वेबसाइट: www.apexfinancials.in
 टेलीफोन: +91-11-40348775

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीय दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्तःस्थापित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिखे जाएंगे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी वेबसाइट www.apexfinancials.in पर और चौरासई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी की प्रतिवृत्तियों में व्यवहार के लिए इन्साइडर ट्रेडिंग विंडो नवम्बर 6, 2018 से नवम्बर 16, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
 कृते जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
 हस्ता/-
 (प्रवीण संचालक)
 कम्पनी सचिव
 दिनांक: 06.11.2018

MVL LIMITED
 CIN: L45200DL2006PLC154848
 Regd. Office: 1201 B, T-12, Floor, Hemkunt Chamber, 89 Nehru Place, New Delhi-110019
 Tel: +91-11-41662674, E-mail: info@mvl.in, Website: www.mvl.in

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 13th November, 2018 at the Corporate Office of the Company at MVL Park, 6th Floor, Near Red Cross Society, Chandan Nagar, Sector-15(II), Gurgaon-122001, inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2018.

By order of the Board of the Directors
 For MVL Limited
 Sd/-
 (Deepak Gupta)
 Whole Time Director & CFO

AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED
 CIN: L01122DL1984PLC018307
 Reg

TATA POWER
The Tata Power Company Limited
(Corporate Contracts Department)
Technopark Knowledge Park CENTEC, Andheri (E), Mumbai 400 093, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173188) CIN:L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER
The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors for the following packages

- Consumer Substation Installation and LT metering work (Package Reference: CC18VKD025)
- Cable laying and associated works (Package Reference: CC18VKD026)
- Supply of 22 kV RMU's (Package Reference: CC18VKD027)
- Revenue Recovery Assurance activities (Package Reference: CC18ABK011)
- Back Office Services for Revenue Assurance and Revenue Recovery Activities (Package Reference: CC18ABK012)
- Bill Printing services (Package Reference: CC18ABK013)

For detailed NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>. Interested bidder to submit Tender Fee and authorization letter before 15.00 hrs on Thursday 29th November 2018.

Shalimar Wires Industries Limited
CIN: L74140WB1996PLC081521
Registered Office: 25, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013
Tel: 91-33-22349308/0910, Fax: 91-33-2211 6880
email ID : kejiwal@shalimawires.com
website : www.shalimawires.com

NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 14th November, 2018 to consider and approve, inter-alia, the unaudited Financial results of the Company for the quarter ended 30th September, 2018. The information is also available on the Company's website at www.shalimawires.com and also on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com

For Shalimar Wires Industries Ltd.
Place : Kolkata S.K. Kejiwal
Date : 5th November, 2018 Company Secretary

RAMKY INFRASTRUCTURE LIMITED
CIN: L74210TG1994PLC017356
Regd. Office: 6, Gachibowli, Hyderabad-50, M. G. Road, Fort, Mumbai-400 001
Email: sec@ramky.com
www.ramkyinfrastructure.com

NOTICE
Notice is hereby issued pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Ramky Infrastructure Limited is scheduled to be held on **Tuesday, 13th Day of November, 2018, at 10.30 a.m.** at the Registered Office of the Company situated at 15th Floor, Board Room, Ramky Grandiose, Sy. No 136/2 & 4, Gachibowli, Hyderabad - 500 032 to consider and approve, inter alia, the Un-audited Financial Results (Standalone) of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2018. Further, the Notice is also placed on the website of the company www.ramkyinfrastructure.com and on the website of Stock Exchanges i.e. NSE & BSE.

For Ramky Infrastructure Limited
Sd/- YR. NAGARAJA
Managing Director
Place: Hyderabad DIN No: 00009810
Date: 05.11.2018

BLUE HORIZON INVESTMENTS LTD.
CIN: L99999MH1974PLC127031
Registered Office: Balarapur Paper Mills,
P.O. Balarapur - 442 901,
Distt. Chandrapur (Maharashtra)

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 46(2)(i) & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 13th November, 2018, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended September 30, 2018.

For BLUE HORIZON INVESTMENTS LTD.
Place : New Delhi
Date : 05.11.2018 Director

SUZLON ENERGY LIMITED
[CIN: L40100G1995PLC025447]
Regd. Office: "Suzlon", 5, Shri Krishna Society,
Near Shri Krishna Complex,
Navrangpura, Ahmedabad-380009.
Tel.: +91.79.6604 5000;
Fax: +91.79.2656 5540;
website: www.suzlon.com;
email id: investors@suzlon.com

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th November 2018 to, inter alia, consider and approve the unaudited Financial Results of the Company on Standalone and Consolidated basis for the quarter ended on 30th September 2018.

For Suzlon Energy Limited
Sd/-
5th November 2018 Hermal A.Kanuga,
Ahmedabad Company Secretary.

HOVS
HOV Services Limited
CIN:L72200PN1989PLC014448
Reg. Office: 3rd Floor, Sharda Arcade, Pune Satara Road, Pune-411037, Maharashtra
Tel: 91 20 24221460, Fax: 91 20 24221470
investorrelations@hovsindia.com | www.hovsindia.com

NOTICE
NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November 13, 2018 to consider inter-alia, Un-audited and reviewed standalone financial results of the Company for 3 months financial period (Q2) and the half year ended September 30, 2018.

The Notice is also available at Investor Relations section of the Company's website www.hovsindia.com and corporate announcement section of www.bseindia.com and www.bseindia.com

For HOV Services Limited
Bhuvanesh Sharma
VP-Corporate Affairs & Compliance Officer
Date: November 5, 2018
Place: Pune

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
Regd. Office : Trident Complex, Rajkot Road, Barnala-148101, Punjab
Ph. +91-1679-244701-07, Fax +91-1679-2447030 www.iolcp.com
Ph. +91-1679-244701-07, Fax +91-1679-2447030, E-mail: contact@iolcp.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on **Wednesday, 14 November 2018** inter-alia to consider the un-audited financial results of the Company for the quarter and half year ended 30 September 2018. Further detail of the same is available on the website of the Company www.iolcp.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
(Krishan Singla)
Vice President & Company Secretary
Place : Barnala
Date : 05 November 2018

NIDHI GRANITES LIMITED
CIN:L51900MH1981PLC025693
Regd. Office: 9, Popat Bapa Shopping Centre, 2nd Floor, Station Road, Santacruz (W), Mumbai - 400054.
Email: pushraj@nsvl.com
Website: www.nidhigranites.com
Tel No: 022 645 5481

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a "03/2018-19" meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, 14th November, 2018** at 11.30 a.m. at its Registered Office 9, Popat Bapa Shopping Centre, 2nd Floor, Station Road, Santacruz (W), Mumbai-400054 inter alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Second Quarter ended 30th September, 2018.

For NIDHI GRANITES LIMITED
Sd/-
Mumbai 05th November, 2018 Rajkumar Thard (Managing Director)

SKIPPER
CIN: L40104WB1981PLC0334007
3A, Loudon Street, Kolkata- 700 017
Phone: 033 2289 2327/5731,
Fax: 033 2289 5733
Email: investor.relations@skipperlimited.com
Website: www.skipperlimited.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 13 November 2018, inter alia to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the second quarter ended 30 September 2018. The information available in this notice is also available on the website of the Company i.e. www.skipperlimited.com and also on website of National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and Bombay Stock Exchange Limited i.e. www.bseindia.com

For Skipper Limited
Manish Agarwal
Place: Kolkata (Company Secretary)
Date: 05.11.2018 Compliance Officer

CANARA ROBECO

Canara Robeco Mutual Fund
Investment Manager : Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.
Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001.
Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 30
Change in the constitution of the Board of Trustees of Canara Robeco Mutual Fund

All the unit holders of Canara Robeco Mutual Fund are requested to take note that Mr. G. Anantharaman, Independent Trustee, has resigned from the Board of Trustees of Canara Robeco Mutual Fund with effect from 25th October, 2018.

All references to him in all the Scheme related documents, therefore, stand removed. This addendum shall form an integral part of the Statement of Additional Information ("SAI") for the schemes of Canara Robeco Mutual Fund as amended from time to time.

Unit holders are requested to visit www.canararobeco.com in respect of their amounts remaining unclaimed or unpaid and follow the prescribed procedure therein.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)
Sd/-
Surabhi Vartak
Company Secretary & Compliance Officer
Place : Mumbai
Date: 05-11-2018
Place: Mumbai Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

PENTOKEY ORGANY (INDIA) LIMITED
CIN: L24116MH1986PLC041681
Regd. Office: Somaiya Bhavan, 45/47, M. G. Road, Fort, Mumbai-400 001
Tel.No. (91-22) 61702100 Fax: (91-22) 22047297
email: investors@pentokey.com
www.pentokey.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 47(1)(a) read with Regulation 29 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 12th November, 2018 at the Registered Office of the Company at Somaiya Bhavan, 45/47, M. G. Road, Fort, Mumbai-400001 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2018.

For Pentokey Organy (India) Limited/
Sd/-
Surabhi Vartak
Company Secretary & Compliance Officer
Place : Mumbai
Date : 5th November, 2018

BRNL
BHARAT ROAD NETWORK LIMITED
CIN : L45203WB2006PLC112235
Registered Office: SB, North-East Block,
Vishwakarma Building,
86C, Topsia Road (South)
Kolkata - 700 046
Tel No. 033 - 6602 3609
Fax No. 033 - 6602 3243
Website: www.brnl.in, Email: cs@brnl.in

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th November, 2018 in New Delhi to, inter alia, consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2018, (subject to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company). This Notice is also available on the Company's website www.brnl.in and on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Bharat Road Network Limited
Sd/-
Naresh Mathur
Company Secretary
FCS 4796
Place: Kolkata
Date : 05.11.2018

FACTOR
FACOR OFFICE: D.PNAGAR, RANDIA - 756 135 DIST: BHADRAK (ODISHA) CIN : L45201OR1955PLC008400
Tel +91-6784-240 272, Fax +91-6784-240 626, Email: factorcp@facorcp.in, Website: www.1955plc008400.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2018

Sr. No.	PARTICULARS	₹ in Lacs except per share data			
		30TH SEPT. 2018 (Unaudited)	30TH SEPT. 2018 (Unaudited)	30TH SEPT. 2017 (Unaudited)	31ST MARCH 2018 (Audited)
1	Total Income from operations	13,992.85	29,290.02	14,313.05	54,542.70
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary item)	1,289.02	3,112.83	(330.25)	3,999.78
3	Exceptional Income / (Expenses) Net	---	(0.03)	3.83	2,487.87
4	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,289.02	3,112.80	(326.42)	6,487.65
5	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	859.89	1,998.79	(190.27)	5,548.17
6	Total Comprehensive Income for the period comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income	846.35	1,972.35	(187.37)	5,492.29
7	Equity Share Capital	1,852.68	1,852.68	1,852.68	1,852.68
8	Other Equity	---	---	---	18,236.83
9	Earnings per share (of ₹ 1/- each) for (not annualised) :				
	(a) Basic EPS	0.46	1.08	(0.10)	2.99
	(b) Diluted EPS	0.46	1.08	(0.10)	2.99

NOTE: 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and on the Company's website www.factorgroup.in
2 Previous period figures are re-grouped/rearranged, wherever necessary, to facilitate comparison.

By Order of the Resolution Professional for Ferro Alloys Corporation Limited
Ritesh Chaudhry
Sr. General Manager (Legal) & Company Secretary

Place: Noida, UP
Date: 5th November, 2018

IDBI mutual
IDBI Asset Management Limited
CIN: U65100MH2010PLC199319
Registered Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005
Corporate Office: 4th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005
Tel: (022) 66442800 Fax: (022) 66442801 Website: www.idbimutual.co.in E-mail: contactus@idbimutual.co.in

NOTICE CUM ADDENDUM NO.17/2018
Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of IDBI Mutual Fund with provision for investment in Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) market.

Notice is hereby given that as per recent RBI directions and subsequent letters issued by CCIL, it is proposed to replace the CBLO market with Tri-party repo. In light of the same, investors of the schemes of IDBI Mutual Fund with provisions to invest in CBLO may please note that since Tri-party repo has replaced CBLO, all reference in Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) for CBLO will be considered to be replaced with Tri-party repo.

The particulars of this notice-cum-addendum is effective from November 5, 2018.

This Addendum shall form an integral part of SID / KIM of all the schemes of IDBI Mutual Fund, as amended from time to time.

For IDBI Asset Management Limited
(Investment Manager to IDBI Mutual Fund)
Sd/-
Date : Mumbai
Date : November 5, 2018 Head - Compliance & Risk Management

Statutory Details: IDBI Mutual Fund has been set up as a trust sponsored by IDBI Bank Limited with IDBI MF Trustee Company Limited as the Trustee ("Trustee") under the Indian Trusts Act, 1882) and with IDBI Asset Management Limited as the Investment Manager.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

THE ORISSA MINERALS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)
REGD. OFFICE: AG 104, "SOURAV ABASAN", 2ND FLOOR, SECTOR-11, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 700 091. Tel: 033 4016 9200
Fax: 033 4016 9267
Email: info.birdgroup@nic.in
Website: www.birdgroup.co.in
CIN: L51430WB1919G01003026

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on **Wednesday, 14th November, 2018** inter alia to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th September, 2018 of The Orissa Minerals Development Company Limited.

For: The Orissa Minerals Development Company Limited
(A. Singh)
Company Secretary
Place: Kolkata
Dated: 07.11.2018

STANDARD SURFACTANTS LIMITED
CIN No. L24243UP1989PLC010950
Registered Office: 8/15 Arya Nagar, Kanpur-208002
e-mail: secretarial@standardsurfactants.com;
Website: www.standardsurfactants.com

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 14th November, 2018 at the registered office of the Company at 8/15 Arya Nagar, Kanpur-208002 at 4.30 PM, inter alia, to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter/half year ended on 30th September, 2018. The Notice is also being made available on the Website of the Company at <http://www.standardsurfactants.com> and that of BSE Limited at <http://www.bseindia.com>

By order of the Board For Standard Surfactants Ltd.
Sd/-
Date: 05.11.2018 (Shivansh Tiwari)
Place: Kanpur Company Secretary

MIRAE ASSET
Mutual Fund

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/28/2018
THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE SCHEME INFORMATION DOCUMENTS (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUMS (KIM) OF THE SCHEMES OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND ("THE FUND")

Introduction of Tri-party Repo in place of Collateralized Borrowing and Lending Obligation ('CBLO') by Clearing Corporation of India Limited (CCIL)

Notice is hereby given that as per RBI directions and subsequent letters issued by Clearing Corporation of India Limited (CCIL), it is proposed to replace the CBLO market with Tri-party Repo. Investors are requested to note that w.e.f Monday, November 5, 2018, CBLO shall be discontinued by CCIL.

In this regard all references for CBLO in SID and KIM of the schemes shall be replaced with Tri-party Repo.

This notice-cum-addendum forms an integral part of SID / KIM of the above-mentioned Scheme of the Fund, as amended from time to time. All the other terms and conditions of SID and KIM of the above-mentioned scheme will remain unchanged.

For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (INDIA) PVT. LTD.
(Investment Manager for Mirae Asset Mutual Fund)
Sd/-
PLACE : MUMBAI
DATE : November 05, 2018
AUTHORISED SIGNATORY

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.)
Registered & Corporate Office: 606, Wincors, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.
☎ 1800 2090 777 (Toll free), ☒ customercare@miraeeasset.com ☕ www.miraeeassetmf.com
CIN of AMC - U65993MH2006FTC165663

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

INDIA POWER
India Power Corporation Limited
CIN: L40105WB1919PLC003263
[Formerly-DPSC Limited]
Plot X1- 2&3, Block-EPC, Sector-V, Salt Lake, Kolkata -700 091.
Tel.: + 91 33 6609 4300/08/09/10,
Fax: + 91 33 2357 2452
E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com

NOTICE
Pursuant to Regulations 29 and 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 12th November, 2018 inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter/half year ended 30th September, 2018.

This notice is also available at the website of the Company (www.indiapower.com) and at the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed.

By Order of the Board For India Power Corporation Ltd.
Sd/-
(Prashant Kapoor)
Company Secretary & Compliance Officer
Dated : 6th November, 2018

VIKAS
VIKAS PROPPANT & GRANITE LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS VIKAS GRANARIES LIMITED)
CIN:L4100HR1994PLC036433
Registered Office: Hisar Road Siwani Haryana -127046 India
Website: www.vikasgranaries.in; Email id: office@vikasgranaries.in; Tel: 91(154) 2494319; Fax: 91(154) 2494361

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AS ON SEPTEMBER 30, 2018

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Half Year Ended
		30.09.2018	30.06.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017
1.	Total Income from operations (net)	1,205.18	927.50	4.15	2,132.68	4.15
2.	Profit/(Loss) from operations before tax and exceptional items	1,186.94	912.29	(234.58)	2,099.22	(533.26)
3.	Profit/(Loss) from operations before tax and after exceptional items	1,186.94	912.29	(69.34)	2,099.22	(533.26)
4.	Net Profit/(Loss) for the period/year after Tax	1,186.94	912.29	(69.34)	2,099.22	(240.58)
5.	Total Comprehensive income for the period/year	1,186.94	912.29	(69.34)	2,099.22	(240.58)
6.	Paid up equity share capital (face value of ₹ 1/- each)	1811.75	1811.75	1811.75	1811.75	1811.75
7.	Earnings/(Loss) per share (Not annualized) Basic(₹) Diluted(₹)	0.66 0.66	0.50 0.50	(0.38) (0.38)	1.16 1.16	(1.33) (1.33)

Notes:-

- The Company adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") effective April 01, 2017 (transition date being April 01, 2016) and accordingly, the financial results for the quarter and six months period ended September 30, 2018 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 "Interim Financial Reporting" prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India and in terms of Regulations 33 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016.
- The above Statement of unaudited Financial Results for the quarter and six month ended September 30, 2018 ("the Statement") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on November 05, 2018 and has been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- The previous period's figures have been re-grouped/re-arranged wherever considered necessary.
- The members of the Company approved the preferential allotment of 11,35,00,000 Equity Shares to Promoters and 21,15,00,000 Equity Shares to Non-Promoters having face value of ₹ 1/- at the price ₹ 2.50/- each fully paid in its General Meeting held on 29th September, 2018. The Company is in process for in-principle approval of allotment of these equity shares to the Bombay Stock Exchange ("the stock exchange").
- The members of the Company in their general meeting held on 29th September, 2018 have approved the issue of 85,00,000 equity shares of ₹ 1/- each (face value) under Vikas Gran Employee Stock Option Plan 2018 (ESOP 2018). The Company is in process for in-principle approval of allotment of these equity shares to the Bombay Stock Exchange ("the stock exchange").
- After preferential allotment of shares under all categories the Reserve & surplus would be increased to ₹ 123.58 crore & paid up share capital ₹ 51.47 crore during third quarter.
- The format of the quarterly financial results is available on the website of Bombay Stock Exchange and the website of the Company ("www.vikasgranaries.in").

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Place: Sri Ganganagar
Date : November 05, 2018
Bimla Devi Jindal
Managing Director

INOX WIND LIMITED
CIN: L31901HP2009PLC031083
Regd. Office: Plot No.1, Khasra No. 264 to 267, Industrial Area, Village-Basal, Distt. Una-174303, Himachal Pradesh
Rtd. L31901HP2009PLC031083 | Tel./ Fax: 01975-272001 | E-mail: investors.iw@inoxwind.com | Website: www.inoxwind.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2018 (Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Half year ended	Quarter ended
		30-09-2018	30-09-2018	30-09-2017
1.	Total Income from operations	43,666	86,711	7,951
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax	244	2,056	(7,060)
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	152	1,189	(4,681)
4.	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/ (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	179	1,203	(4,610)
5.	Paid-up equity share capital (face value Rs. 10 per share)	22,192	22,192	22,192
6.	Earnings per share (face value of Rs.10/- each) (not annualized)			
	a) Basic (Rs.)	0.07	0.54	(2.11)
	b) Diluted (Rs.)	0.07	0.54	(2.11)

Notes:

- The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on 05th November, 2018. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the above results for the quarter and half year ended 30th September, 2018.
- The above results are an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly and half yearly standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.inoxwind.com).
- Information on Standalone Financial Results: (Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Half year ended	Quarter ended
		30-09-2018	30-09-2018	30-09-2017
1.	Total Income from operations	39,971	78,875	3,556
2.	Net Profit before tax	1,143	3,338	(6,511)
3.	Net Profit after tax	738	2,149	(4,280)

On behalf of the Board of Directors
For Inox Wind Limited
Sd/-
Devansh Jain
Director
Place: Noida